



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 10—जून 16, 2006 (ज्येष्ठ 20, 1928)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10—JUNE 16, 2006 (JYAISTHA 20, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ सं. 455	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ सं. *
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	511	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1521
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	721	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	253
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2797
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	449
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	455	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	511	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1521
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	721	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	253
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2797
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	449
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2006

संकल्प

सं० ई-11011/5/2004 हिन्दी-4 : भारत सरकार में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के राजस्व एवं व्यय विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 11 अप्रैल, 2005 के संकल्प संख्या ई० 11011/5/2004-हिन्दी-4 में भारत सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. क्रम संख्या 26 पर वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“ श्री सुरेन्द्र कुमार टुटेजा, प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद सदस्य”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

राकेश सिंह
संयुक्त सचिव

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2006

संकल्प

सं. एफ 6-5/2005-यू. 3

जबकि भारत सरकार ने दिनांक 28 सितंबर, 2005 को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, सोसायटी, शिमला का पुनर्गठन किया है। प्रो. रुपा बी. शाह, जो कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, सोसायटी की एक नामित सदस्य थीं, द्वारा 'श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई' के कुलपति पद से त्यागपत्र देने के कारण एक पद रिक्त हो गया है। तदनुसार, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी, शिमला के नियमों और विनियमों के नियम 3 (ख) (i) के प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा डा. पंजाब सिंह, कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को प्रो. रुपा बी. शाह द्वारा रिक्त किए गए पद की शेष कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सावर्जनिक सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी. के. पालीवाल
उप-शिक्षा सलाहकार

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2006

संकल्प

संख्या 14/1/2004-हिन्दी-जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य श्री लक्ष्मण दास चतुर्वेदी के 30.4.2006 को आकस्मिक निधन के कारण इस समिति से उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक-सभा सचिवालय, राज्य-सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के. एस. रामसुब्बन
संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2006

संख्या क्यू- 16012/2/2005- ई.एस.ए. (डब्ल्यू. ई.): जबकि श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 12 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या क्यू- 16012/2/2005- ई.एस.ए. (डब्ल्यू. ई.): के तहत पुनर्गठित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के संघटन को आम जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि कामगार संगठन के दो प्रतिनिधियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि, तथा राज्य सरकारों के तीन प्रतिनिधियों के नाम बाद में अधिसूचित किए जायेंगे ।

अतः, आम जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की नियमावली तथा विनियमों के नियम 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य नामित किया जाता है :-

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1. | श्रम आयुक्त,
बिहार सरकार,
बिहार | सदस्य |
|----|---------------------------------------|-------|

कामगार संगठन के प्रतिनिधि

- | | | |
|----|--|-------|
| 2. | डा. सुभाष शर्मा,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
74-एस.एफ., सरस्वती विहार,
कपूरथला मार्ग,
जलन्धर- 144008 | सदस्य |
| 3. | श्री जी.एल.धर,
सचिव, एटक,
24, केनिंग लेन,
नई दिल्ली -110001 | सदस्य |

नियोजक संगठन के प्रतिनिधि

4. श्री सुधीर सोहोनी, सदस्य
कार्यकारी उपाध्यक्ष-एच आर/आई आर एवं
प्रशासन,
थर्मक्स लिमिटेड, डी-13, एम आई डी सी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, आर डी आगा रोड, चिंचवाड़,
पुणे-411019

कामगार संगठन के एक प्रतिनिधि, नियोजक संगठन के एक प्रतिनिधि और मानव संसाधन विकास, मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे ।

यू. डी. एन. सिधवानी
उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi-110001, the 15th May 2006

RESOLUTION

No.E-11011/5/2004-Hindi-4. In the Resolution of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue) Number E-11011/5/2004-Hindi-4 dated 11th April, 2005 regarding re-constitution of the Joint Hindi Salahkar Samiti of the Department of Revenue and Expenditure, the Government of India makes the following amendments :-

1. The existing entry at serial number 26 shall be substituted by the following :

“Shri Surendra Kumar Tuteja,pradhan,Kendriya

Sachivalaya Hindi parishad

Member”

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of this Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Parliamentary committee on official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAKESH SINGH
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 12th May 2006

RESOLUTION

No.F.6-5/2005-U.3

Whereas the Indian Institute of Advanced Study (IIAS) Society, Shimla, was re-constituted by the Government of India on the 28th September, 2005. Due to demitting of office of the Vice-Chancellor of 'Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University, Mumbai, by Prof. Rupa B. Shah, who was a nominated member on the IIAS Society, a vacancy has now arisen. Accordingly, in accordance with the provision of Rule 3(b)(i) of the Rules and Regulations of the IIAS Society, Shimla, the Government of India hereby nominates Dr. Panjab Singh, Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi as a member for the unexpired term of the membership vacated by Prof. Rupa B. Shah.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. K. PALIWAL
Deputy Educational Adviser

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 26th May 2006

RESOLUTION

No.14/1/2004-Hindi-consequent upon the demise of Shri Laxman Das Chaturvedi on 30.4.2006 non official member of Hindi Advisory Committee of this ministry, his membership from committee is ceased with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. RAMASUBBAN
Joint Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th May 2006

No.Q-16012/2/2005-ESA(WE): Whereas in the Ministry of Labour and Employment Notification No.Q-16012/2/2005-ESA(WE) dated the 12th May, 2006 notifying the composition of the reconstituted Central Board for Workers Education for information of the public, it was mentioned that the name of two representatives of Workers Organization, one representative each from Ministry of Human Resource Development and University grant Commission and three representatives of State Governments will be notified later.

Now, therefore, it is notified for information of the public that the following persons are nominated as members of Central Board For Workers Education as per rule 3 of Rules and Regulations of Central Board For Workers Education :-

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENT

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Labour Commissioner,
Government of Bihar,
Bihar. | Member |
|----|--|--------|

REPRESENTATIVES OF WORKERS ORGANISATION

- | | | |
|----|---|--------|
| 2. | Dr.Subash Sharma
Indian National Trade Union Congress
74-SF,Sarasvati Vihar,
Kapurthala Road,
Jalandhar-144 008 | Member |
| 3. | Shri G.L.Dhar
Secretary,AITUC,
24, Canning Lane,
New Delhi-110001 | Member |

REPRESENTATIVES OF EMPLOYERS ORGANISATION

4. Shri. Sudhir Sohoni Member
Executive Vice President-HR/IR & Admn.
Thermax Ltd.,
D-13, MIDC Industrial Area,
R.D. Aga Road, Chinchwad,
Pune-411 019

The names of one representative of Workers Organization, one representative from Employers Organization and one each from Ministry of Human Resource Development and University Grants Commission and two representatives of State Government will be notified later.

U. D. N. SIDHWANI
Deputy Secy.